

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]	दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2019/भाद्र 13, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 174
No. 206]	DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019/BHADRA 13, 1941	[N.C.T.D. No. 174

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

सं. 29/2018- राज्य कर (दर)

फा. सं. 03(27)/ वित्त (राज.-1) / 2019-20 / डीएस-VI/392.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 09 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017, जिसे फा. सं. 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/379, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2), मद (छ) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा, सड़क मार्ग से गुड्स कैरिज में माल के परिवहन के रूप में -

(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या

(ख) स्थानीय प्राधिकरण; या

(ग) सरकारी एजेंसियों,

जिन्होंने केवल धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) में पंजीकरण कराया हो और न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए, को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी।”;

(ख) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“12.	बिजनेस फैसिलिटेटर(बीएफ) के द्वारा बैंकिंग कंपनी को दी जाने वाली सेवाएं	बिजनेस फैसिलिटेटर(बीएफ)	कोई भी कंपनी जो कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो
13.	किसी बिजनेस कोरेसपोण्डेंट (बीसी) के किसी एजेंट के द्वारा बिजनेस कोरेसपोण्डेंट (बीसी) को दी जाने वाली सेवाएं	बिजनेस कोरेसपोण्डेंट (बीसी) का एजेंट	ऐसा बिजनेस कोरेसपोण्डेंट (बीसी) जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो
14.	<p>किसी पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सेवाएं (ऐसी सेवाएं जो सुरक्षा कार्मिकों की आपूर्ति करके दी गई हों):</p> <p>बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात उन गार्ड की सेवाओं पर लागू नहीं होगी जो कि, -</p> <p>(i) (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या</p> <p>(ख) स्थानीय प्राधिकरण; या</p> <p>(ग) सरकारी एजेंसियों,</p> <p>जिन्होंने केवल धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के लिए दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) में पंजीकरण कराया हो और न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए, को प्रदान की गई हो”;</p> <p>(ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो कि दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजिशन स्कीम के लिए पंजीकृत हों।</p>	कोई भी व्यक्ति जो कि निगमित निकाय से भिन्न हो	ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो”;

(ii) स्पष्टीकरण में, उप-वाक्य (छ), के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ज) इस अधिसूचना के प्रावधान जहां तक ये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों पर लागू होते हैं, संसद और राज्यों के विधान मंडल पर भी लागू होंगे।”।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए० के० सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को फा.सं. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/379, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2018- राज्य कर (दर), दिनांक 02/09/2019 जिसे फा.सं. 03(6)/वित्त(राज.-

1)/2019-20/डीएस-VI/372 दिनांक 02/09/2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd September, 2019

No. 29/2018 – State Tax (Rate)

F.No. 3 (27)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/392.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.13/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* F.No. 3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 379, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification,-

(i) in the Table,-

(a) against serial number 1, in the entry in column (2), after item (g), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that nothing contained in this entry shall apply to services provided by a goods transport agency, by way of transport of goods in a goods carriage by road, to, -

(a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union Territory; or

(b) local authority; or

(c) Governmental agencies,

which has taken registration under the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making a taxable supply of goods or services.”;

(b) after serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“12.	Services provided by business facilitator (BF) to a banking company	Business facilitator (BF)	A banking company, located in the taxable territory
13.	Services provided by an agent of business correspondent (BC) to business correspondent (BC).	An agent of business correspondent (BC)	A business correspondent, located in the taxable Territory.
14.	Security services (services provided by way of supply of security personnel) provided to a registered person: Provided that nothing contained in this entry shall apply to, - (i)(a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union Territory; or (b) local authority; or (c) Governmental agencies; which has taken registration under the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) only for the purpose of deducting tax under section 51 of the said Act and not for making a taxable supply of goods or services; or (ii) a registered person paying tax under section 10 of the said Act.	Any person other than a body corporate	A registered person, located in the taxable Territory.”;

(ii) in the Explanation, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

“(h) provisions of this notification, in so far as they apply to the Central Government and State Governments, shall also apply to the Parliament and State Legislatures.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st January, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Note: The principal notification No.13/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* F.No. 3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379 dated 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No.15/2018-State Tax (Rate), dated the 2nd September, 2019, *vide* F.No. 3(6)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/372 dated the 2nd September, 2019.